

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने मुख्य उपलब्धियां दर्शाते हुए, 2021 झलकियां रिलीज की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 फरवरी, 2022) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, पिछले वर्ष की मुख्य उपलब्धियों को उजागर करते हुए, 2021 में 2018-2022 की टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज (Term of Council priorities) के आगे बढ़ने के बारे में ताज़ा जानकारी रिलीज की।

लगातार, सिटी कोविड-19 (COVID-19) महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने के लिए, सिटी के सामने आई चुनौतियों के बावजूद, सिटी ने ऐसी कुशल और प्रभावशाली सेवाएं प्रदान की हैं, जो निवासियों के लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं। साथ ही, सिटी ने इस टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाने में खास प्रगति की है।

### कोविड-19 के दौरान कम्युनिटी सहायता

सिटी की टास्क फोर्स (Task Forces) और रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप (Reopening and Recovery Working Group) ने, यह सुनिश्चित करने के लिए अपना काम जारी रखा कि कम्युनिटी में कोविड-19 से प्रभावित हुए लोगों को, सहायता और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, इसने महामारी शुरू होने से लेकर, हिमायत के द्वारा, 120 मिलियन डॉलर से अधिक की कोविड-संबंधी फंडिंग सुरक्षित की।

कई झलकियों के साथ, इसमें शामिल हैं:

- सोशल स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Social Support Task Force) ने, कम्युनिटी संगठनों में सेनिटाइज़र के 350 से अधिक बॉक्स और एंटीबैक्टीरियल वाइप्स के 200 बॉक्स के योगदान में सहयोग दिया; साथ ही, इसने पील हंगर रिलीफ नेटवर्क (Peel Hunger Relief Network) के विस्तार में पील (Peel) में मुख्य भोजन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साझेदारी की।
- ब्रैम्पटन रेक्रीएशन (Brampton Recreation) के साथ साझेदारी में, सीनियर्स स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Seniors Support Task Force) ने, सीनियर्स डिजिटल कैफे (Seniors' Digital Café) के द्वारा 51 मीटिंगों का प्रचार किया; और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के कम्युनिटी रिस्पॉन्स टेबल सीनियर्स सब-ग्रुप (Community Response Table Seniors Sub-group) और मास वैक्सीनेशन कमेटी (Mass Vaccination Committee) के साथ मिलकर काम किया।
- यूथ स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Youth Support Task Force) ने, मुफ्त इंटरएक्टिव और भागीदारी वाली सोशल मीडिया गतिविधियों और गेम्स के साथ, फिटनेस प्रोग्रामों और कार्यक्रमों का आयोजन किया, ताकि युवाओं को क्रियाशील रहने और मनोरंजन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और युवाओं की सेवा में काम करने वाले 40 से अधिक संगठनों के अपने नेटवर्क के द्वारा, सेवाओं को आसान बनाया और उनमें वृद्धि की।
- इकोनॉमिक स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Economic Support Task Force) ने, छोटे कारोबार की तीन राउंडटेबल मीटिंगों का आयोजन किया, जिसमें लगभग 60 छोटे कारोबारियों ने हिस्सा लिया; और ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton

Entrepreneur Centre) के द्वारा, 850 छोटे कारोबारों को 78,800 रैपिड एंटीजन टेस्ट (Rapid Antigen Tests) प्रदान किए गए।

- रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप ने, दो स्टेकहोल्डर्स मीटिंगें आयोजित कीं, जिनमें सिटी की फैसिलिटीज को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने और प्रोग्रामों को दुबारा शुरू करने के बारे में विचारविमर्श करने के लिए, 55 से अधिक कम्युनिटी समूहों को शामिल किया गया; और वर्किंग ग्रुप के चेयर ने बाइ-लॉ एंड एन्फोर्समेंट (By-law & Enforcement) और पील रीजन के मेडिकल हेल्थ अफसर के साथ, सोशल मीडिया पर कई पब्लिक एन्गेजमेंट्स का आयोजन किया।

### **ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है (Brampton is a City of Opportunities)**

सिटी ने रहने की योग्यता और खुशहाली में सुधार करना जारी रखा है:

- काउंसिल के द्वारा मंजूर की गई अफोर्डेबल हाउसिंग स्ट्रैटजी (Affordable Housing Strategy) के लिए, 8.4 मिलियन डॉलर वितरित किए
- नए इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान (Integrated Downtown Plan) के हिस्से के तौर पर, स्ट्रीटस्केपिंग काम में 16.6 मिलियन डॉलर का निवेश किया
- वेलकमिंग स्ट्रीट्स (Welcoming Streets) पायलट प्रोग्राम के लिए, रीजन ऑफ पील से 250,000 डॉलर प्राप्त किए, इस प्रोग्राम का उद्देश्य, कम्युनिटी सुरक्षा में सुधार करके, डाउनटाउन की कम्युनिटीज की सहायता करना है।
- 14 शुरुआती उद्यमों को स्वीकार करने के साथ, ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) में अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों के लिए, BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton) की शुरुआत की

### **ब्रैम्पटन एक मोजैक है (Brampton is a Mosaic)**

सिटी, ब्रैम्पटन की विविधता का जशन मना रही है और पूरे शहर में विविधता को शामिल करने के लिए, समग्र फ्रेमवर्क विकसित कर रही है:

- एडवांस ब्रैम्पटन फंड (Advance Brampton Fund) के द्वारा 70 संगठनों को फंडिंग दी गई, जिसमें 675,238 डॉलर वितरित किए गए
- विविध कम्युनिटी के लिए होने वाले, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) के कैरियर जानकारी सेशन में 500 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए
- 6 कम्युनिटी संगठन कार्यक्रमों के लिए, मार्की फेस्टिवल एंड इवेंट्स फंड (Marquee Festival and Events Fund) के द्वारा, 290,775 डॉलर की राशि प्रदान की गई
- ब्रैम्पटन की आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) ने, विविध और मार्जनलाइज्ड समूहों के लिए, कार्यक्रम और अवसरों को प्राथमिकता दी

**ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है (Brampton is a Green City)**

सिटी, स्थिरता बढ़ा रही है:

- पूरी तरह इलेक्ट्रिक-पावर वाला फायर ट्रक खरीदने वाली ओनटैरियो की पहली म्युनिसिपल्टी
- ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) फ्लीट में आठ इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गईं
- बैट्समैन पार्क (Batsman Park) वुडलोट को बहाल करने के लिए, सी.एन. (CN) और ट्री कॅनेडा (Tree Canada) से, 25,000 डॉलर की ग्रांट प्राप्त हुई
- 8,000 पेड़ लगाने के लिए कॅनेडा सरकार से 1.2 मिलियन डॉलर सुरक्षित किए

**ब्रैम्पटन स्वस्थ और सुरक्षित शहर है (Brampton is a Healthy and Safe City)**

सिटी, कम्युनिटी सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता में सुधार और सक्रिय तथा स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है:

- जेस केयर फाउंडेशन (Jays Care Foundation) और पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Peel District School Board) के साथ साझेदारी में, सिटी ने जुडिथ नडमन फील्ड ऑफ ड्रीम्स (Judith Nyman Field of Dreams) सुलभ बेसबॉल डायमंड पूरा किया
- सभी उपभोक्ताओं के लिए सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद के लिए, 50 ऑटोमेटेड स्पीड एन्फोर्समेंट (Automated Speed Enforcement) कैमरे इंस्टॉल किए (ओनटैरियो में सबसे बड़ा ए.एस.ई. (ASE) प्रोग्राम)
- रोडवेज को सुरक्षित रखने के लिए पूरी सिटी में, 180 कम्युनिटी सेफ्टी जोन्स (Community Safety Zones) नियत किए
- ब्रैम्पटन एनिमल सर्विस (Brampton Animal Services), 103 जानवरों को दुबारा घर देकर, Home To Home™ इंटरएक्टिव पालतू जानवर री-होमिंग सेवा पेश करने वाली कॅनेडा की पहली सेवा बन गई

**ब्रैम्पटन अच्छी तरह संचालित शहर है (Brampton is a Well-Run City)**

ब्रैम्पटन अपने रोजाना संचालनों में सुधार कर रहा है:

- मज़बूत अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां दर्शाते हुए, लगातार 6वें वर्ष के लिए, एस. एंड पी. ट्रिपल A क्रेडिट रेटिंग (S&P Triple A Credit Rating) कायम रखी
- बेस्ट कम्युनिटीज़ इन कॅनेडा 2021 (Best Communities in Canada 2021) के लिए मैक्लीन्स (Maclean's) सूची पर #13 की रैंकिंग
- फोर्ब्स (Forbes) के द्वारा कॅनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स 2021 (Canada's Best Employers 2021) में से एक की रैंकिंग
- 10,463 रिहायशी परमिट और 1,145 इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशन परमिट जारी किए, जो कुल 1.726 बिलियन डॉलर की कंस्ट्रक्शन वेल्यु है
- आरक्षित पूंजी में 117 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड योगदान कायम रखते हुए, लगातार चौथे वर्ष टैक्स नहीं बढ़ाया गया और नए पील मेमोरियल अस्पताल (Peel Memorial Hospital) के लिए, 62.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग नियत करके, हेल्थकेयर विस्तार के प्रति सिटी की प्रतिबद्धता दर्शाई है

2021 की झलकियों और उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/tocp](http://www.brampton.ca/tocp) पर जाएं।

## हवाले

“हमारे नियंत्रण से परे की चुनौतियों के बावजूद, सिटी ने 2021 में हमारी मुख्य प्राथमिकताओं पर खास प्रगति करना जारी रखा है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक फायर ट्रक खरीदकर, वातावरण संबंधी स्थिरता में लगातार लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करने से लेकर, हमारे डाउनटाउन में 16.6 मिलियन डॉलर स्ट्रीटस्केपिंग निवेश को मंजूरी देने, आरक्षित पूंजी में रिकॉर्ड योगदान कायम रखते हुए, लगातार चौथे वर्ष टैक्स न बढ़ाते हुए और हेल्थकेयर विस्तार के प्रति सिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, हमने हमारे निवासियों और कारोबारियों के लिए नतीजे प्राप्त करना जारी रखा है। हम 2022 में इस कार्य को जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“2021 में, हमने बहुत-सी चुनौतियों का सामना किया क्योंकि हम लगातार कोविड-19 महामारी के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमारे स्टाफ ने, हमारे निवासियों, कारोबारियों और कम्युनिटी ग्रुपों की सहायता के लिए, जल्दी से स्थिति को अनुकूल बनाया। इस टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायरिटीज को आगे बढ़ाने के तेज़ फोकस के साथ, हमने मुख्य पहलकदमियां प्रदान करना और हमारे शहर को आगे बढ़ाना जारी रखा है। मुझे, वे सभी कुशल और प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हुए, जो हमारे निवासियों के लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं, 2021 में हमारी टीम के द्वारा की गई प्रगति पर गर्व है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

## मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)